

August 14, 2024

Scrip Code: 543272	Symbol: EASEMYTRIP	
P J Towers, Dalal Street, FortMumbai – 400001	Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400051	
	National Stock Exchange of India Limited (NSE).	

Subject: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Dear Sir/Madam,

Pursuant to provisions of Regulation 47 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the newspaper clippings regarding publication of the unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2024, published in Financial Express (English) and Jan Satta (Hindi) on August 14, 2024 are enclosed.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

For Easy Trip Planners Limited

Priyanka Tiwari Group Company Secretary and Chief Compliance Officer Membership No.: A50412



Registered office: Building No. - 223, Patparganj Industrial Area, New Delhi - 110092 (India)























FINANCIAL EXPRESS

• FASTER MERGER NOD

RIL & Disney offer to sell a few channels

ADITYA KALRA New Delh, August 13

Merger to

RELIANCE AND WALT Disney have offered to sell some channels to win faster antitrust approval for their \$8.5-billion India media assets merger, but are resisting changes to cricket broadcast rights they own, two sources said.

Antitrust experts have warned that the Reliance-Disney merger, announced in February, could face intense scrutiny as it will create India's biggest enter-

tainment player which will compete with Sony, Zee STORY SO FAR Entertainment, Netflix and Amazon with a combined 120 TV channels and two

The merged company, which will be majority owned by Mukesh Ambani's ■ The firms are Reliance, will also have resisting changes lucrative rights worth bilto cricket broadlions of dollars for the broadcast rights cast of cricket, raising pricthey own ing power fears and its grip

streaming services.

over advertisers.

After the Competition

create India's Commission of India (CCI) biggest enterprivately asked Reliance and tainment player Disney around 100 ques-■ CCI has tions related to the merger, privately asked the companies have told the watchdog they are willing to Reliance and sell some TV channels— Disney around fewer than 10—to assuage 100 questions concerns of market power related to and win an early approval, the merger said the sources. The sources Merged entity said some of the concessions to be majority being offered relate to owned by regional Indian language Reliance channels where the two companies may have a dom-

Zee and Sony planned to create a \$10 billion TV behemoth in India and in 2022 offered concessions by selling three TV channels. That helped them win CCI approval, but the merger eventually collapsed.

inant market share.

CCI's notification approving that deal, which contained details of the competitive landscape, showed that in local language Marathi, Disney and Reliance channels back then had a combined market share of between 65% and 75%. In Bengali language entertainment channels, the two had as much as a 50% market share. Disney declined to comment. Reliance and the CCI did not respond to *Reuters* requests for comment. **—REUTERS**

Sony Pictures appoints three new heads in top-deck reshuffle

FE BUREAU Mumbai, August 13

SONY PICTURES NETWORKS India (SPNI) has appointed three new leaders in general entertainment and movie channels following the departure of Neeraj Vyas.

Nachiket Pantvaidya, a media veteran with previous stints at Star TV and Balaji Telefilms, has been appointed as the business head of

Sony Entertainment Television. This marks Pantvaidya's third stint with SPNI. He will retain his current role as general manager at Sony Pictures International Productions. allowing him to leverage his exper-

tise across both platforms. Ajay Bhalwankar, who has been with SPNI since 2014 and currently manages its Marathi channel.will also spearhead Sony SAB as its business head.

Tushar Shah, currently the business head of English, Bengali, and infotainment channels and the chief marketing officer at SPNI, will expand his portfolio to include oversight of Sony MAX,

Sony MAX HD, Sony MAX 2, Sony WAH and Sony PAL. Shah has been instrumental in driving growth and profitability for the channels under his purview, the company said.







HIGHEST EVER CONSOLIDATED LOAN AUM: 28% YOY INCREASE AT ₹98,048 CRORES"

HIGHEST EVER STANDALONE LOAN AUM: 25% YOY INCREASE AT ₹84,324 CRORES'

IIGHEST EVER CONSOLIDATED PROFIT AFTER TAX IN ANY QUARTER: 14% YOY INCREASE AT 1,196 CRORES

HIGHEST EVER STANDALONE PROFIT AFTER TAX IN ANY QUARTER: 11% YOY **INCREASE AT** 1,079 CRORES

HIGHEST EVER **GOLD LOAN** DISBURSEMENT IN ANY QUARTER ₹73,648 CRORES

HIGHEST EVER **GOLD LOAN** DISBURSEMENT TO **NEW CUSTOMERS** IN ANY QUARTER: ₹5,651 CRORES

HIGHEST EVER INCREASE IN GOLD LOAN AUM 23% YOY **INCREASE AT** 14,883 CRORES

RAISED **USD 650 MILLION** THROUGH GLOBAL **ISSUANCE OF** BONDS'

CONSOLIDATED **NET WORTH** ₹25,259 CRORES

BRANCH NETWORK OF 6759"





Note: The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly Financial Results and is not a statutory advertisement required under SEBI guidelines. The detailed financials and investor presentation is available on the website of the Company at www.muthootfinance.com

- Transforming CUSTOMER Experience



Muthoot • nline

Gold Loan @ Home





Muthoot Finance Limited: CIN: L65910KL1997PLCO11300; Regd. Office: Muthoot Chambers, Opposite Saritha Theatre Complex, Banerji Road, Ernakulam, Kerala - 682 018, India. Tel: (+91 484) 239 4712, Fax: (+91 484) 239 6506; Email: mails@muthootgroup.com

Muthoot Family - 800 years of Business Legacy



Easy Trip Planners Limited

Registered Office: Building No. - 223, Patparganj Industrial Area, New Delhi - 110092 (India) Email us: Care@easemytrip.com Call us: 011 - 43131313, 43030303

₹1,562.2 **Total Income**

23.4% 1

₹471.8 Million **Profit Before Tax**

34.5%

₹33.9 Million

Profit After Tax

31.0% 👚

₹ 0.19

Earnings Per Share 28.5%

% increase are shown on year to year basis (INR In Millions)

Particulars	Quarter Ended 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)	
Total income	1,562.19	1,725.58	1,266.45	6090.81	
Net Profit / (Loss) for the period before tax	471.81	550.71*	350.82	2150.63*	
Net Profit / (Loss) for the period after tax	339.29	391.25*	259.05	1576.67*	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	340.25	(146.82)	253.12	1031.70	
Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs.1/- each)	1,772.04	1,772.04	1738.32	1772.04	
Earnings per equity share (face value Rs.1/- per equity share) (not annualised for quarters) Basic & Diluted	0.19	(0.09)	0.15	0.58	

Note: The above is an extract of the detailed format of Consolidated unaudited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The full format of the Consolidated unaudited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2024 are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com / www.nseindia.com) and Company's website www.easemytrip.com.

*Restated before other comprehensive income, non-controlling interest and exceptional items.

Place : New Delhi Date: August 13, 2024 By Order of the Board For Easy Trip Planners Limited

Name: Priyanka Tiwari Designation: Group Company Secretary and Chief Compliance Officer Membership No.: A50412

Over 25 Million+ Happy Customers

*T&C Apply



INDIA'S 2nd MOST TRUSTED JEWELLERY BRAND BY TRA REPORT 2024 • 2nd MOST DESIRED BRAND BYTRA REPORT 2023 MORE THAN 85 YEARS OF LEGACY AND TRUST

• 164+ STORES ACROSS INDIA HUID HALLMARKEDJEWELLERY

 CERTIFIED DIAMONDS OMNICHANNEL SHOPPING

*1INTERNATIONAL STORE

SENCO GOLD LIMITED

Registered Office: "Diamond Prestige", 10th Floor, 41A, AJC Bose Road, Kolkata-700017 CIN: L36911WB1994PLC064637

E-mail: ir@sencogold.co.in | Website: www.sencogoldanddiamonds.com | (T): +91 33 4021 5000 EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2024

(₹ in millions, unless otherwise stated) Consolidated Standalone Three months ended Year ended Three months ended Year ended **Particulars** 31 March 31 March June 30, 31 March June 30, 31 March June 30, June 30, 2024 2024# 2023 2024 2024 2024# 2024 2023 (Unaudited) (Audited) (Unaudited (Audited) (Unaudited) (Refer note 3) (Unaudited) Refer note 3 14,273.69 11,429.32 13,136.00 14,161.77 11,501.25 52,836.83 Total income from operations 52,724.23 13,148.46 (including other income) Net profit/(loss) for the period 728.69 571.04 382.61 2,573.13 707.97 523.79 374.56 2,495.38 (before tax and exceptional items) Net profit/(loss) for the period 533.44 368.33 284.73 1,887.50 512.72 321.73 276.68 1,810.04 before tax (after exceptional items) 370.70 506.59 322.17 275.30 1,789.45 528.79 283.35 1,868.95 Total comprehensive income for the period (after tax) Paid-up equity share capital 777.04 777.04 691.46 777.04 777.04 777.04 691.46 777.04 (Face value of ₹ 10/- each) Other equity 12,993.04 12,878.38 Earnings per equity share (EPS) (face value of ₹ 10 each) (in ₹) (* not annualised) 6.87 4.90 4.12 * 6.63 4.28* 4.00 25.09 24.06 Basic Diluted 6.85 4.88 4.11 25.01 6.61 * 4.26 * 3.99 23.98

(#) Refer note 3.

Note: 1 The consolidated unaudited financial results of Senco Gold Limited (the 'Holding Company') and its wholly owned subsidiaries, Senco Gold Artisanship Private Limited and Senco Global Jewellery Trading LLC, (the Holding Company and its subsidiaries together referred to as 'the Group') for the quarter ended 30 June 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the respective meetings held on 12 August 2024 and a limited review of the same has been carried out by the Statutory Auditors of the Company.

2 These results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34, Interim Financial Reporting ('Ind AS 34'), prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 and other accounting principles generally accepted in India and is in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).

3 The figures for the quarter ended 31 March 2024 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the unaudited published figures upto nine months of the relevant financial year, which was subject to limited review.

4 The chief operating decision maker (CODM) has identified 'jewellery business' as a single business operating segment per management approach enumerated

in Ind AS 108, 'Operating Segments'. Accordingly, no other disclosures are required to be furnished per the aforementioned standard. 5 Figures for the previous period(s) have been regrouped/ reclassified wherever necessary to conform to current period(s)/ year(s) classification. The impact of

> For and on behalf of Board of Directors Senco Gold Limited

Ranjana Sen,

Chairperson and Executive Director

DIN: 01226337



Date: 12th August 2024

Place: Kolkata






such reclassification/regrouping is not material to the financial results.



New Delhi







. सीईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियम 1999 और सीईआरसी (टैरिफ की नियम व शर्ते) विनियम 2019 के विनियम-86 के अंतर्गत अनुमोदन i) 2019-24 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रांसिमशन टैरिफ का सही निर्धारण और ii) 2024-29 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण याचिका-1: उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–क, याचिका–2: कोलडैम हाइड्रो–इलेक्ट्रिक परियोजना से जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली, याचिका-3: उत्तरी क्षेत्र में सिंगरौली-विंध्याचल कॉरिडोर में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना, याचिका-4: पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में अतिरिक्त आईसीटी और रिएक्टरों का प्रावधान, याचिका-5: उत्तरी क्षेत्र में विशेष ऊर्जा मीटर याचिका-6ः ऊंचाहार-क्क्क ट्रांसमिशन प्रणाली, याचिका-7ः उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड चरण-II के लिए विशेष सुरक्षा योजना (एसपीएस), याचिका-8: 220 केवी से जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली उत्तर प्रदेश में प्रणाली पह्रदीकरण योजना. याचिका-9: उत्तरी क्षेत्र में रिहंद दादरी एचवीडीसी बाय-पोल और गोरखपुर-मुजफ्फरपुर 400 💆 केवी लाइन के लिए विशेष संरक्षण योजना, याचिका-10: उत्तरी क्षेत्र में बरेली (यूपीपीसीएल) में 400 केवी 🞖 डी/सी धौलीगंगा एचईपी - बरेली (यूपीपीसीएल) ट्रांसिमशन लाइन और उससे संबंधित बे।

उपर्यक्त टांसमिशन प्रणाली के लाभार्थी हैं: (ए) अजमेर विद्यत वितरण निगम लि. (बी) जयपर विद्यत वितरण निगम लि. (सी) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. (डी) पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसटी कॉपोरेंशन लिमिटेड (ई) है हरियाणा पावर परचेज सेंटर (एफ) जम्मू और कश्मीर पावर कॉपोरेंशन लि. (जी) उत्तर प्रदेश पावर कॉपोर्रेशन लि. (एच) बीएसईएस यमुना पावर लि. (आई) बीएसईएस राजधानी पावर लि. जे) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि. (के) चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट (एल) उत्तरांचल पावर कॉपोरेंशन लि. (एम) 💆

ारेपा किस्त्राञ्च्या (ए.) (क) यञ्चापकु श्लाकुराता क्षिप्रतान (एए) उत्तरायण पायर कामारता ।ए. (५०) उ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे (एन) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, (ओ) हिमाचल प्रदेश राज्य विजली बोर्ड। 3. टैरिफ विवरण:											
	(ए) 2019-24 ब्लॉक लाख रुपये में										
याचिका सं.	आस्ति विवरण	डीओसीओ/ ईसीओडी/ नेशनल	31.03.20 तक समा लागत	पन		2019-20	2020-2	1 2021	-22	2022-23	2023-24
याचिका- 1	आस्ति- 1	01.07.2011	38672.	o α	टर्निंग अप र आधारित संशोधित एएफसी	5667.29	5491.6	5318	3.72	5153.52	5000.43
याचिका- 2	आस्ति- 1	01.04.2011	18684.:	23 ^प	टनिंग अप र आधारित संशोधित एएफसी	2623.64	2534.1	1 2445	i.15	2359.51	1498.92
याचिका- 3	आस्ति- 1	01.05.2007	1889.8	₅ Ψ	टर्निंग अप र आधारित संशोधित एएफसी	294.08	219.96	219	0.06	218.54	220.15
याचिका- 4	आस्ति- 1	01.02.2013	3123.6	∖२ म	टनिंग अप र आधारित संशोधित एएफसी	444.41	428.59	413	1.54	398.85	385.05
याचिका- 5	आस्ति- 1	01.05.2002	668.7	1 ^प	टनिंग अप र आधारित संशोधित एएफसी	92.41	92.32	92	2.23	92.23	92.40
याचिका- 6	आस्ति- 1	01.11.2007	5238.3	14 T	टनिंग अप र आधारित संशोधित एएफसी	815.40	657.68	653	3.00	649.39	648.30
याचिका- 7	आस्ति- 1	01.04.2014	191.9	R Ψ	टनिंग अप र आधारित संशोधित एएफसी	28.93	27.3	5 26	36	25.72	25.07
याचिका- 8	आस्ति- 1	23.08.2004	2391.3	25 T	टनिंग अप र आधारित संशोधित एएफसी	197.28	195.49	193	.80	192.29	191.25
याचिका- 9	आस्ति- 1	01.08.2008	262.9	5 4	टनिंग अप र आधारित संशोधित एएफसी	32.39	31.7	7 17	7.41	17.41	17.44
याचिका- 10	आस्ति- 1	01.08.2005	17210.	7. T	टर्निंग अप र आधारित संशोधित एएफसी	1540.86	1540.00	1539	.46	1541.50	1548.33
(b) 2024-	-29 ब्लॉ	क								₹.	लाख में
याचिका सं.	आस्ति विवरण	01.00.20			2024-2	25 2025	-26 20	26-27	20	27-28	2028-29
याचिका-1 आस्ति-1 38672.33				एएफसी	3193.0	08 3223	.62 32	56.67	32	291.65	3329.21
याचिका-2 आस्ति-1 18684.23		एएफसी	1444.0	02 1449	.25 14	59.49	14	470.31	1481.67		
याचिका−3	आस्ति-	1 1889	0.85	एएफसी	226.0	230	.54 2	35.23	:	240.21	245.51

4. इस नोटिस की एक प्रति तथा टैरिफ निर्धारण के लिए किए गए आवेदन की एक प्रति आवेदक की वेबसाइ

3123.63

668.71

5238.34

191.98

262.95

याचिका-4 आस्ति-1

याचिका-5 आस्त्रि-1

याचिका-7 आस्ति-1

www.powergrid.in प पोस्ट की जा रही हैं। आवेदन में निहित टैरिफ निर्धारण के प्रस्तावों पर सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, तो लाभार्थी सहित किसी व्यक्ति द्वारा सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, 6वीं, 7वीं और 8वीं मंजिल, टॉवर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029 (या अन्य पता जहां आयोग का कार्यालय स्थित है) के समक्ष दायर की जानी चाहिए,

92.40

एएफसी 598.64 597.36

एएफसी 187.04 187.95

एएफसी 17.44 17.44

40.84 36.13

एएफसी 369.96 254.81 249.07 243.65 241.24

एएफसी | 1487.51 | 1494.22 | 1501.71 | 1510.13 | 1519.69

92.40

10.97

188.92

92.40

जानी चाहिए। <u> नांक: 13.08.2024</u>

92.38 38.24

10.97 10.97

596.53 | 598.09 | 604.95

189.96

17.44 17.43 17.44

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) पंजी. कार्यालयः बी-१, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 कापोर्रेशन . सौदामिनी', प्लॉट नंबर 2, सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001, (हरियाणा) सीआईएन - L40101DL1989GQI038121

EaseMyTrip



राइट्स लिमिटेड

शेयरधारकों को 50वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि राइट्स लिमिटेड के सदस्यों की 50वीं गर्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार, 12 सितम्बर, 2024 को प्रातः11.00 बजे (आईएसटी) वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो–विजुअल साधनों "ओएवीएम") के माध्यम से, एजीएम की सुचना में सुचीबद्ध कार्य के निष्पादन हेत् . आयोजित की जाएगी, जोकि अलग से प्रेषित की जा रहेी है।

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) परिपत्रों के माध्यम से कम्पनियों को वार्षिक आम बैठक का आयोजन किसी एक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो–विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से करने की अनुमति दी गई है। उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र के अनुसार एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2023—24 हेत् एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट सहित, केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा उन सदस्यों को प्रेषित की जाएगी, जिनका ई—मेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत है। सदस्यगण नोट करें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.rites.com तथा स्टॉक एक्सचेन्जों बीएसई लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इडिंया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगी सदस्यगण **केवल वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से** एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम की सूचना में एजीएम से जुड़ने हेतू निर्देश दिए गए हैं। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन कोरम के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

कम्पनी अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर उनके वोट डालने के लिए रिमोट ई—वोटिंग सुविधा ("**रिमोट ई—वोटिंग**") प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा ("**ई—वोटिंग**") प्रदान कर रही है। एजीएम की सूचना में रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग हेतु विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। यदि आपकी ई-मेल आईडी कम्पनी / आरटीए के पास पहले से पंजीकृत है, ई-वोटिंग हेतु लॉगइन विवरण आपके पंजीकृत ई–मेल पते पर भेजे जा रहे हैं।

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि कृपया अपना ई—मेल पता पंजीकृत करवाने के लिए नीचे दिए निर्देशों का अनुसरण करें, ताकि कम्पनी द्वारा समय समय पर इलेक्ट्रॉनिक विधि सं भेजे जाने वालें सभी संदेश, जिनमें वार्षिक रिपोर्ट्स, सूचनाएं, परिपत्र, एनएसीएच सूचना इत्यादि सम्मिलित हैं, प्राप्त कर सकें।

सदस्यगण, जिनके शेयर्स भौतिक रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (फ्रंट एवं बैक), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति) आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति) ई-मेल द्वारा आरटीए को rites@beetalfinancial.com/ beetalrta@gmail.com पर अथवा कम्पनी को cs@rites.com

शेयर्स के धारक सदस्य अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से सम्पर्क कर अपनी ई—मेल आईडी पंजीकृत करवा सकते हैं।

वित्त अधिनियम, 2020 के प्रावधानों अनुसरण में, दिनांक 01 अप्रैल, 2020 की प्रभावी तिथि से शेयरधारकों को हस्तांतरित की जाने वाली लाभांश आय कर योग्य होगी तथा कम्पनी को शेयरधारकों को भगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर कटौती निर्धारित दरों पर करनी होगी। विभिन्न संवर्गों के लिए निर्धारित दरों हेतु, शेयरधारकों से वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधन देखने का अनुरोध किया जाता है। शेयरधारकों से अपना पैन कम्पनी / आरटीए के पास (यदि शेयर फिजिकल रूप में हैं) और डिपॉजिटरीज के पास (यदि शेयर डीमैट रूप में हैं) अद्यतन करवाने का अनुरोध किया जाता है।

कोई निवासी शेयरधारक व्यक्ति, जो पैन धारक है तथा आय कर भुगतान के अधीन नहीं है, वह स्रोत पर कर कटौती नहीं की जाने का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रपत्र सं. १५जी / १५एच में एक वार्षिक घोषणा <u>rites@beetalfinancial.com</u> को अथवा <u>beetalrta@gmail.com</u> को 05 सितम्बर, 2024 को सायं 5.00 बजे आईएसटी) तक प्रस्तुत कर सकता है। शेयरधारकों से यह नोट करने का अनुरोध है कि पैन पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में कर कटौती 20% की उच्चतर दर पर की जाएगी यदि कम्पनी बैंक खाता पंजीकृत नहीं होने के कारण किसी व्यक्ति को लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक विधि करने में असमर्थ है, तो कम्पनी ऐसे शेयरधारको को यथाशीघ्र लाभांश वारंट / चैक प्रेषित करेगी।



कृते राइट्स लिमिटेड हस्ता./-अशोक मिश्रा कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालयः स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 वेबसाइट:www.rites.com, ई-मेलः cs@rites.com, फोन: 0124-2571656

ईज़ी द्रिप प्लानर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: भवन संख्या - २२३, एफ.आई.ई., पटपड्गंज औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली - ११००९२ (भारत) हमें ईमेल करें: Care@easemytrip.com हमें कॉल करें: 011 - 43131313, 43030303



कुल आय 23.4%



कर देने से पूर्व लाभ 34.5%



कर के बाद लाभ 31.0%

प्रति शेयर आय

28.5%

% वृद्धि वर्ष दर वर्ष आधार पर दशर्डि गर्ड है INR लाखों में

विवरण	30. 06.2024 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31.03.2024 को समाप्त तिमाही (लेखापरीक्षित)	30.06.2023 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	समाप्त वर्ष ३१.०३.२०२४ (लेखापरीक्षित)
कुल आय	1,562.19	1,725.58	1,266.45	6090.81
कर से पहले की अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)	471.81	550.71*	350.82	2150.63*
कर के बाद की अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)	339.29	391.25*	259.05	1576.67*
अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लाभ/हानि (कर शामिल) और अन्य व्यापक आय (कर शामिल)]।	340.25	(146.82)	253.12	1031.70
भुगतान किया हुआ इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रु १)	1,772.04	1,772.04	1738.32	1772.04
प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य १/- प्रति इक्विटी शेयर) (तिमाही के लिए वार्षिक नहीं) मूल और मिश्रित	0.19	(0.09)	0.15	0.58

नोट: उपरोक्त ३० जुन, २०२४ को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है, जो सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, २०१५ के विनियमन ३३ के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किया गया है।३० जून, २०२४ को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइटों (www.bseindia.com www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट www.easemytrip.com पर उपलब्ध है।

* अन्य व्यापक आय, गैर-नियंत्रित ब्याज और असाधारण वस्तुओं से पहले पुन: स्थापित।

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: १३ अगस्त २०२४

बोर्ड की आजानुसार ईज़ी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के लिए नाम: प्रियंका तिवारी

पद: समूह कंपनी सचिव और मुख्य अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्या: A50412

25 मिलियन से अधिक खुश ग्राहक

नियम और शर्तें लागू



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम सिवी परिपत्र सेबी संख्या / एवओ / डीडीएचएस डीआईवी1 / पी / सीआईआर / 2022 / 0000000103 दिनांक 29 जुलाई , 2022 के अनुसार)

	-		5	(रू. करोड़ मे)
क्र.		समाप्त	तिमाही	समाप्त वर्ष
प्रग. सं.	विवरण	30 जून, 2024	30 जून, 2023	31 मार्च, 2024
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित
1.	प्रचालनों से कुल आय*	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (पिछली अवधि, कर, असाधारण एवं अथवा विशिष्ट मदों से पूर्व)	(121.81)	(115.52)	(803.77)
3.	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण एवं अथवा विशिष्ट मदों के बाद)	(143.98)	(135.74)	(800.79)
4.	कर पश्चात् अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण एवं अथवा विशिष्ट मदों के बाद)	(143.98)	(135.74)	(800.79)
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/हानि (कर पश्चात्) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्)**	(143.98)	(135.74)	(800.79)
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयरधारकों की निधि)***	7,53,593.51	5,78,887.53	7,08,177.58
7.	संचित कोष (पुनर्मूल्यांकन संचित कोष को छोड़कर)	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
8.	सिक्योरिटीज प्रीमियम खाता	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
9.	नेटवर्थ (6-7)	7,53,593.51	5,78,887.53	7,08,177.58
10.	प्रदत्त ऋण पूंजी/बकाया ऋण	3,34,370.15	3,42,342.09	3,35,373.20
11.	बकाया प्रतिदेय अधिमान्य शेयर्स	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
12.	ऋण इक्विटी अनुपात ****	0.44	0.59	0.47
13.	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक रु का) (निरंतरता एवं गैर–निरंतरता प्रचालनों हेतु)- 1. बेसिक 2. डायल्यूटेड	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
14.	पूंजी विमोचन संचित कोष	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
15.	डिबेंचर विमोचन संचित कोष	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
16.	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं

*प्राधिकरण के पास भारत सरकार की ओर से परिसंपत्तियां है, इसलिए संचालनों से कोई आय नहीं है। **प्राधिकरण की लेखा नीति के आधार पर व्ययों को पूंजीकृत किया गया है।

शेयरधारकों की निधि =पुंजी आधार, उप कर निधि, अतिरिक्त बजटीय समर्थन, इनवीट से आय, टोल प्लाजा के रखरखाव व्यय तथा रिजर्व और अधिशेष / लाभ एवं हानि खाते के बकाया ऋण की कटौती के पश्चात जमा टोल की वापसी के बाद की कुल राशि। *ऋण इक्विटी अनुपात = बकाया ऋण / शेयरधारकों की निधि।

क) उपरोक्त विवरण एलओडीआर नियम के विनियम 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दर्ज तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट

(www.bseindia.com एवं www.nse.india.com) तथा भा.रा.रा.प्रा. की वेबसाइट (www.nhai.gov.in) पर उपलब्ध है। ख) एलओडीआर नियम के विनियम 52 (4) में संदर्भित अन्य लाइन मदों के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को उचित उद्घोषणा कर दी गई है तथा जो वेबसाइट (www.bseindia.com एवं www.nse.india.com) पर देखी जा सकती है।

दिनांकः 13.08.2024 स्थानः नई दिल्ली

ब्याज सेवा कवरेज अनुपात









ह ∕-

अध्यक्ष

प्राधिकरण के बोर्ड के लिए एवं की ओर से

मान्य नहीं

मान्य नहीं

सदस्य (वित्त)

सडकें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी





INDIA'S 2nd MOST TRUSTED JEWELLERY BRAND BY TRA REPORT 2024 • 2nd MOST DESIRED BRAND BY TRA REPORT 2023 MORE THAN 85 YEARS OF LEGACY AND TRUST

• 164+ STORES ACROSS INDIA

HUID HALLMARKEDJEWELLERY

• CERTIFIED DIAMONDS

• 1 INTERNATIONAL STORE

SENCO GOLD LIMITED

Registered Office: "Diamond Prestige", 10th Floor, 41A, AJC Bose Road, Kolkata-700017 CIN: L36911WB1994PLC064637 E-mail: ir@sencogold.co.in | Website: www.sencogoldanddiamonds.com | (T): +91 33 4021 5000

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2024

	(Fin millions, unless otherwise st.								
			(₹ in millions, unless otherwise state						
		.	Standalone						
Sl.		Three months ended			Year ended		Three months ended		
No.	Particulars	June 30, 2024	31 March 2024#	June 30, 2023	31 March 2024	June 30, 2024	31 March 2024#	June 30, 2023	31 Marc 2024
		(Unaudited)	(Refer note 3)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Refer note 3)	(Unaudited)	(Audited
1	Total income from operations (including other income)	14,273.69	11,429.32	13,136.00	52,724.23	14,161.77	11,501.25	13,148.46	52,836.
2	Net profit/(loss) for the period (before tax and exceptional items)	728.69	571.04	382.61	2,573.13	707.97	523.79	374.56	2,495.
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items)	533.44	368.33	284.73	1,887.50	512.72	321.73	276.68	1,810.
4	Total comprehensive income for the period (after tax)	528.79	370.70	283.35	1,868.95	506.59	322.17	275.30	1,789.
5	Paid-up equity share capital (Face value of ₹ 10/- each)	777.04	777.04	691.46	777.04	777.04	777.04	691.46	777.
6	Other equity	-	-	-	12,993.04	-	-	-	12,878.
7	Earnings per equity share (EPS) (face value of ₹ 10 each) (in ₹) (* not annualised)								
	Basic Diluted	6.87 * 6.85 *	4.90 * 4.88 *	4.12 * 4.11 *	25.09 25.01	6.63 * 6.61 *	4.28 * 4.26 *	4.00 * 3.99 *	24. 23.

(#) Refer note 3.

st Brand 2024

- 1 The consolidated unaudited financial results of Senco Gold Limited (the 'Holding Company') and its wholly owned subsidiaries, Senco Gold Artisanship Private Limited and Senco Global Jewellery Trading LLC, (the Holding Company and its subsidiaries together referred to as 'the Group') for the quarter ended 30 June 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the respective meetings held on 12 August 2024 and a limited review of the same has been carried out by the Statutory Auditors of the Company.
- 2 These results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34, Interim Financial Reporting ('Ind AS 34'), prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 and other accounting principles generally accepted in India and is in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and 2015 are requirements of Regulations and SEBI (Listing Obligations). The results of the SEBI (Listing Obligations) and Disclosure Requirements are requirements of Regulations and SEBI (Listing Obligations). The results of the SEBI (Listing Obligations) and Disclosure Requirements are requirements of Regulations and Disclosure Requirements are requirements Requirements are requirements are requirements and Disclosure Requirements are requirements are requirements and Disclosure Requirements are requirements are requirements and Disclo
- 3 The figures for the quarter ended 31 March 2024 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the unaudited
- published figures upto nine months of the relevant financial year, which was subject to limited review. 4 The chief operating decision maker (CODM) has identified 'jewellery business' as a single business operating segment per management approach enumerated
- in Ind AS 108, 'Operating Segments'. Accordingly, no other disclosures are required to be furnished per the aforementioned standard. 5 Figures for the previous period(s) have been regrouped/ reclassified wherever necessary to conform to current period(s)/ year(s) classification. The impact of such reclassification/regrouping is not material to the financial results.

For and on behalf of Board of Directors

Senco Gold Limited Ranjana Sen, **Chairperson and Executive Director**

DIN: 01226337

Date: 12th August 2024 Trusted Jewellery







FRANCHISEE ENQUIRY: 9874453366 **CORPORATE ORDER ENQUIRY: 7595089191**

Scan here to visit you Senco





